



कोरोनावायरस (COVID-19) संबंधी सूचना और स्कूल – माता पिता और विद्यार्थियों के लिए जानकारी

सभी ऑस्ट्रेलियाई सरकारें – फेडरल (केन्द्रीय), राज्य और टेरेटरी की सरकारें – शिक्षा की महत्ता को स्वीकार करती हैं और COVID-19 की महामारी की पूरी अवधि में विद्यार्थियों की शिक्षा-प्राप्ति में सहायता करने के लिए वचनबद्ध हैं।

राज्य और टेरेटरी की सरकारें तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के प्राधिकरण अपने-अपने स्कूलों का प्रबंध करने और संचालनात्मक निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होती हैं। आपके क्षेत्र के स्कूल COVID-19 पर कैसे प्रतिक्रिया कर रहे हैं, इस संबंधी जानकारी के लिए सबसे पहले अपने स्कूल से संपर्क करें, और अपनी राज्य या टेरेटरी की सरकार द्वारा दी जाने वाली सलाह का अनुपालन करें। राज्य और टेरेटरी की सरकारों के शिक्षा विभाग की वेबसाइट्स के लिंक नीचे दिए गए हैं:

[Australian Capital Territory](#)
[New South Wales](#)
[Northern Territory](#)
[Queensland](#)
[South Australia](#)
[Tasmania](#)
[Victoria](#)
[Western Australia](#)

राज्य और टेरेटरी की सरकारें इस बात को लेकर सहमत हैं कि स्कूलों में COVID-19 पर प्रतिक्रिया कैसे करनी चाहिए इस संबंधी फैसलों का विशेषज्ञ, आधिकारिक और राष्ट्रीय तथा राज्य-व्यापी जन स्वास्थ्य और शिक्षा सलाह द्वारा सूचित किया जाना जारी रहना चाहिए।

स्कूलों में COVID-19 के संक्रमण के संभावी खतरे को कम करना

24 अप्रैल 2020 को, ऑस्ट्रेलियाई स्वास्थ्य संरक्षण मुख्य समिति (Australian Health Protection Principal Committee - AHPPC) ने स्कूलों में संक्रमण के संभावी खतरे को कम करने के संबंध में [स्वास्थ्य परामर्श \(health advice\)](#) जारी किया। यह व्यावहारिक मार्गदर्शन और परामर्श उन स्कूली मार्गदर्शकों के लिए तैयार किया गया है जो बच्चों, माता-पिता, टीचरों और समर्थन कर्मचारियों के साथ काम करते हैं ताकि COVID-19 महामारी के दौरान स्कूलों में कोरोनावायरस (COVID-19) के संक्रमण के अपेक्षाकृत कम खतरे को और भी कम किया जा सके।

संक्षेप में निम्नलिखित बातों पर गौर किया जाना चाहिए:

- **माता-पिता के लिए:** यदि आपकी संतान अस्वस्थ है, तो यह ज़रूरी है कि वह स्कूल न जाए। आपके लिए यह ज़रूरी है कि आप उन्हें घर पर रखें और दूसरों से अलग रखें। स्कूल आने पर अन्य माता-पिता और टीचरों से शारीरिक दूरी बनाए रखना याद रखें, इसमें अपने बच्चों को ड्राप और पिक करने के समय शामिल हैं।
- **बच्चों के लिए:** यदि आप अस्वस्थ महसूस कर रहे/रही हैं तो अपने माता-पिता, अभिभावक या टीचर को बताएँ।

- **टीचरों के लिए:** यदि आप अस्वस्थ हैं या असुरक्षित व्यक्ति की श्रेणी में आते/आती हैं तो काम पर न आएं।
- **वयस्कों के लिए:** स्कूली परिवेश में संक्रमण का सबसे अधिक खतरा वयस्कों के बीच होता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि टीचर अन्य टीचरों से और माता-पिता अन्य माता-पिता से तथा टीचर और माता-पिता एक दूसरे से से शारीरिक दूरी बनाए रखें।

स्वच्छता

विद्यार्थियों को यह याद दिलाया जाता है कि वे:

- साबुन और पानी से अक्सर अपने हाथ धोएँ, इसमें खाने खाने से पहले और इसके बाद तथा शौचालय जाने के बाद साबुन और पानी से अपने हाथ धोना शामिल है।
- हैंड सैनीटाइज़र का प्रयोग करें।
- खांसते या छींक मारते समय अपनी बाजू या किसी टिशु से इसे ढकें (अपने हाथ से नहीं)।
- प्रयोग किए गए अपने टिशु तुरंत कूड़ेदान में डालें और फिर अपने हाथ धोएँ।
- अपना चेहरा या मुँह छूने की कोशिश न करें।
- दूसरे लोगों से हाथ न मिलाएँ या उनका हाथ न पकड़ें।
- अपने और दूसरों के बीच सामान्य से अधिक दूरी बनाकर रखें।
- कतार बनाने से बचें।
- यदि आप व्याकुल महसूस कर रहे/रही हों तो अन्य लोगों से संपर्क करें।

सीनियर सेकेंडरी प्रबंध और युनिवर्सिटी में भर्तियाँ

7 अप्रैल 2020 को, राज्य और टेरेटरी के शिक्षा मंत्रियों में यह सहमति हुई थी कि सीनियर सेकेंडरी विद्यार्थी (कक्षा 12 के विद्यार्थी) इस वर्ष सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन प्राप्त करने में सक्षम होंगे, और उस सर्टिफिकेट के माध्यम से उन्हें युनिवर्सिटी, आगे की शिक्षा और रोज़गार तक पहुँच प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी।

NAPLAN

20 मार्च 2020 को, शिक्षा मंत्रियों ने यह फैसला लिया था कि 2020 में NAPLAN का संचालन नहीं किया जाएगा। NAPLAN का संचालन 12 से 22 मई 2020 को किया जाना तय था।

2020 में NAPLAN का संचालन न किए जाने का फैसला स्कूल के मार्गदर्शकों, अध्यापकों और समर्थन कर्मचारियों की सहायता करने के लिए किया गया है ताकि वे विद्यार्थियों के कल्याण और शिक्षा की निरंतरता पर ध्यान केन्द्रित कर सकें।

NAPLAN एक राष्ट्रीय आकलन है जो लिटरेसी (साक्षरता) के तीन क्षेत्रों – रीडिंग, राइटिंग और लेंग्वेज कन्वेन्शन्स (स्पेलिंग, ग्रामर और पंक्चुएशन) – और न्यूमरेसी (अंक-ज्ञान) में विद्यार्थी की क्षमता का आकलन करता है। सभी राज्यों और टेरेटरियों के स्कूलों ने 2008 से हर वर्ष मई के महीने में NAPLAN का आयोजन किया है।